

विषय-सूची

(अ) भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र

- भूगोल विषय सम्बन्धी विभिन्न विद्वानों की अवधारणाएँ (Concepts of Different Scholars Regarding Geography)..... 3-8
- प्रमुख संकल्पनाएँ—नियतिवाद, सम्भववाद, नव-निश्चयवाद (Main Concepts—Determinism, Possibilism, Neo-Determinism)..... 9-14
- पारिस्थितिकी (Ecology)..... 15-18

(ब) भौतिक भूगोल

- पृथ्वी की आन्तरिक संरचना (Interior Structure of the Earth)..... 19-23
- खनिज एवं चट्टानें (Minerals and Rocks)..... 24-32
- भू-संचलन (Earth Movements)..... 33-43
- ज्वालामुखी (Volcanoes)..... 44-61
- अपरदन चक्र (Cycle of Erosion)..... 62-67
- अपरदन के अभिकर्ता (Agents of Erosion)..... 68-89
- वायुमण्डल (Atmosphere)..... 90-94
- सूर्याताप (Insolation)..... 95-101
- वायुदाब एवं पवन (Air Pressure and Winds)..... 102-111
- आर्द्रता एवं वर्षा (Humidity and Rainfall)..... 112-116
- उष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण चक्रवात (Tropical and Temperate Cyclones)..... 117-122
- विश्व जलवायु का वर्गीकरण (Classification of World Climate)..... 123-127
- महासागरों का तापमान एवं लवणता (Temperature and Salinity of Oceans)..... 128-135
- ज्वारभाटा एवं महासागरीय धाराएँ (Tides and Oceanic Currents)..... 136-150
- महासागरीय निक्षेप (Ocean Deposits)..... 151-154
- प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs)..... 155-161
- जैवमण्डल (Biosphere)..... 162-170
- निर्बनीकरण (Deforestation)..... 171-174

(स) मानव भूगोल

- मानव-पर्यावरण सम्बन्ध (Man-Environment Relationship)..... 175-178
- जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Effects of Population Growth).... 179-180
- जनसंख्या के सिद्धान्त (Theories of Population)..... 181-184

(द) आर्थिक भूगोल

● संसाधन एवं उनका वर्गीकरण (Resources and their Classification).....	185–190
● खनिज तथा शक्ति संसाधन (Minerals and Power Resources).....	191–205
● मानव संसाधन (Human Resources).....	206–211
● कृषि (Agriculture).....	212–226
● उद्योग (Industries).....	227–236
● विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश (Main Industrial Regions of the World).....	237–243
● परिवहन (Transport).....	244–251
● अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade).....	252–253

(य) प्रादेशिक भूगोल

● विकसित एवं विकासशील देश (Developed and Developing Countries).....	254–255
● एंग्लो अमरीका (Anglo America).....	256–262
● यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community).....	263–271
● रूस (Russia).....	272–275
● चीन और जापान (China and Japan).....	276–284
● दक्षिणी-पूर्वी एशिया (South-East Asia).....	285–291

भारत का भौगोलिक स्वरूप

● उच्चावच (Relief).....	292–302
● अपवाह (Drainage).....	303–309
● जलवायु (Climate).....	310–317
● प्राकृतिक वनस्पति (Natural Vegetation).....	318–322
● मिट्टियाँ (Soils).....	323–327
● सिंचाई (Irrigation).....	328–332
● बहुउद्देशीय परियोजनाएँ (Multi-Purpose Projects).....	333–339
● कृषि (Agriculture).....	340–349
● संसाधन आधार : खनिज एवं ऊर्जा संसाधन (Resource Base : Mineral and Power Resources).....	350–361
● उद्योग (Industries).....	362–375
● जनसंख्या (Population).....	376–388
● भूगोल शिक्षण (Teaching Geography).....	1–20
